

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

61-65, संस्थानिक क्षेत्र, डी-ब्लॉक जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

टी.ए. बिल (अनौपचारिक)/T.A. Bill (Non-Official)

1. नाम/ Name पदनाम/ Designation.....
2. संस्थान का नाम/पता/ Name of Institution/Address.....
3. यात्रा का उद्देश्य/ Purpose of the journey.....
4. बहिर्यात्रा का विवरण/ PARTICULARS OF OUTWARD JOURNEY:-
यात्रा के प्रारंभ होने की तिथि और समय- (दिनांक/Date) (समय/Time)

(i) बहिर्यात्रा/Onward Journey

कहाँ से/ From			कहाँ तक/To			हवाई / रेल / बस / टैक्सी / स्कूटर	दूरी (कि.मी.)	किराया भुगतान किया
दिनांक Date	समय Time	स्थान Station	दिनांक Date	समय Time	स्थान Station	द्वारा यात्रा की गई Travelled by Air/Rail/Bus/ Taxi/Scooter	Distance K.M	(रुपये) Fare Paid (Rs.)
.....
.....

स्थान पर आगमन की तिथि और समय - (दिनांक/Date)..... (समय/Time).....
Date and time of arrival at the Venue

5. वापसी यात्रा का विवरण/ PARTICULARS OF RETURN JOURNEY:-
यात्रा के प्रारंभ होने की तिथि और समय- (दिनांक/Date) (समय/Time)

(i) वापसी यात्रा/Return Journey

कहाँ से/ From			कहाँ तक/To			हवाई / रेल / बस / टैक्सी / स्कूटर	दूरी (कि.मी.)	किराया भुगतान किया
दिनांक Date	समय Time	स्थान Station	दिनांक Date	समय Time	स्थान Station	द्वारा यात्रा की गई Travelled by Air/Rail/Bus/ Taxi/Scooter	Distance K.M	(रुपये) Fare Paid (Rs.)
.....
.....

स्थान पर आगमन की तिथि और समय - (दिनांक/Date)..... (समय/Time).....
Date and time of arrival at the Venue

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ/ I hereby certify that:-

1. मेरे द्वारा दिए गए विवरण सही हैं/ Particulars given by me overleaf are correct;
2. मैंने वास्तव में मेल / एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा उस वर्ग में यात्रा की जो उस दावे से कम नहीं है जिसके लिए प्राथमिकता दी गई है/
I actually travelled by mail/express train in the class not lower than that for which the claim has been preferred;
3. रेल / हवाई यात्रा के लिए कोई वापसी का टिकट उपलब्ध नहीं था/ No return ticket was available for the Rail/Air journey;
4. सड़क यात्रा जिसके लिए यात्रा भत्ता का दावा किया गया है, निःशुल्क नहीं किया गया था/ Road journeys for which T.A. has been claimed were not performed free of cost;
5. मैंने वास्तव में से तक और वापस हवाई यात्रा की, और विमान किराया रुपये टिकट नम्बर भुगतान किया/ I actually travelled by Air from to and back, and paid Air fare Rs. T. No.
6. मुझे उपरोक्त अवधि के दौरान मुफ्त बोर्डिंग / अस्थायी आवास प्रदान किया / नहीं किया गया था/ I was/ not provided with free boarding/lodging during above period;
7. मैंने उपरोक्त यात्रा और विराम के संबंध में किसी भी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता आहरित नहीं किया है/ I have not drawn T.A./D.A. form any other source in connection with above journeys and halts I

दावेदार के हस्ताक्षर (तिथि सहित)/Signature of the claimant (with date).....

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the controlling Officer

कार्यालय उपयोगार्थ /FOR USE IN OFFICE

१.	बहिर्यात्रा/Outward Journey			
	(अ) किराया/Fare	Rs.....	रुपये	
	(ब) सड़क लाभ/Road Mileage	Rs.....	रुपये	
२.	वापसी यात्रा/Return journey			
	(अ) किराया/Fare	Rs.....	रुपये	
	(ब) सड़क लाभ/Road Mileage	Rs.....	रुपये	
३.	महंगाई भत्ता/DA			
	(अ) किराया/Fare	Rs.....	रुपये	
	(ब) सड़क लाभ/Road Mileage	Rs.....	रुपये	
				कुल/Total Rupees रुपये

रुपये Passed for Rupees..... के लिए स्वीकृत (Rupees..... रुपये)
.....
.....

महानिदेशक/लेखा अधिकारी/ Director General/Accounts Officer

रुपये/Received Rs..... प्राप्त किये (Rupees..... रुपये)
.....

रसीदी टिकट / Revenue Stamp

एन.ओ.एम. के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)/
Signature of N.O.M. (with Date)
.....

बैंक खाता विवरण / Bank Account Details

खाताधारक का नाम/ Name of Account Holder:-

(बैंक पासबुक के अनुसार/ as per bank passbook)

खाता नम्बर/ Account No:-

बैंक का नाम / Name of Bank:- शाखा/Branch:-

आई.एफ.एस.सी. कोड/ I.F.S.C. Code:-